



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26—मई 2, 2008 (वैशाख 6, 1930)  
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26—MAY 2, 2008 (VAISAKHA 6, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग I—खण्ड 2

#### [PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2008

सं. आरएस./3/8(1)/2008/9—कार्मिक,--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में सहायक निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में उप निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:--

1. श्री शंभु दत्त जोशी (प्रोफ़ोर्मा आधार पर)

2. श्री धर्म प्रकाश कपूर

2. श्री धर्म प्रकाश कपूर की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के कारण हुई रिक्ति के स्थान पर तदर्थ आधार पर है। उप निदेशक (सुरक्षा) के ग्रेड में तदर्थ आधार पर दी गई सेवा छत्र ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजन से और अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु नहीं गिनी जाएगी।

के. सुधाकरण, उप निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. पी एफ. 787-आर(3)/जी एन-6037/ए एन-1/2008.--श्री नीलादर आलम ने जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर इस सचिवालय में 12,000-375-16,500 रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (लार्डिस) ग्रेड-II के रूप में 19 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

आर. सी. आहूजा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 18 मार्च 2008

सं. पी एफ. 192-आर(3)/जी एन-6036/ए एन-1/2008.--श्री सीधन कुमार गांगुली ने भारतीय खाद्य निगम, भुवनेश्वर से प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर इस सचिवालय में 8,000-275-13,500 रुपये के वेतनमान में कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में 14 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिया है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. पीएफ. 5आर(3)/जी एन-6041/ए एन-1/2008.--अध्यक्ष महोदय, 18,400-22,400 रुपए के वेतनमान में कार्यरत श्री एन. के. सपरा, संयुक्त सचिव को 22,400-525-24,500 रुपए के वेतनमान में अपर सचिव के रूप में 8 अप्रैल, 2008 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. ए-38012/3/2007-प्रशा.-I.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एस. आर. मेहरा, भा.पु.से. (असेम-मेघालय : 1970), सचिव (सुरक्षा) मंत्रिमंडल सचिवालय, 31 मार्च 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

संख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 3 अप्रैल 2008

सं. 12018/01/2007-भा.सं.से.--संख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने भारतीय संख्यिकी सेवा (आईएसएस : 2006) के आईएसएस प्रशिक्षु श्री सजयन टी. द्वारा 24.3.2008 को प्रस्तुत त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।

वेंकटरामन आर. हेगड़े, उप निदेशक (आईएसएस)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. 20/जी/2976-प्रशा.-1.--राष्ट्रपति, श्री विश्वपति त्रिवेदी, भा.प्र. से. (म.प्र. 77) को गृह मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह) के रूप में दिनांक 1 अप्रैल 2008 के पूर्वार्द्ध से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अपर सचिव

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. I-18011/5/2007-आई पी एस.-IV.--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम-3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अग्निहोत्री सोनल मोहन, आई पी एस (हिमाचल प्रदेश : 2004) को दिनांक 6 सितम्बर 2006 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई पी एस-IV)

नई दिल्ली, दिनांक 11 अप्रैल 2008

सं. आई-14011/25/2007-आई.पी.एस.-1.--भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 17.3.2008 को चयन समिति की दिनांक 14.11.2007 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2007 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें

भारतीय पुलिस सेवा के गुजरात संवर्ग में वर्ष 2007 में तीन मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु गुजरात राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :--

चयन सूची 2007

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	एम. डी. जानी	05.04.1963
2.*	एन. के. आमीन (अ. जा.)	21.05.1958
3.#	ए. बी. वसवा (अ. जन जा.)	01.06.1951

\* क्रम संख्या 2 पर दिए गए नाम को उनके विरुद्ध संबंधित विभागीय जांच/आपराधिक मामलों के निपटान किए जाने के अध्यधीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

# क्रम संख्या 3 पर दिए गए नाम को राज्य सरकार द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने के अध्यधीन सूची में अनंतिम रूप से शामिल किया गया है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

सं. आई-14011/25/2007-आई.पी.एस.-1.--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य पुलिस के श्री एम. डी. जानी (जन्म तिथि 5.4.1963) को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत गुजरात संवर्ग प्रदान करते हैं। यह नियुक्ति अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. ए-19011/1/2006-प्रशासन--सं. एस. डी. प्रधान, अध्यक्ष, संयुक्त आसूचना समिति, भारत सरकार के सचिव के रैंक से अपनी सेवा को विस्तारित अवधि की समाप्ति पर दिनांक 29 फरवरी, 2008 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

जो. राजीव, अवर सचिव

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 2 अप्रैल 2008

सं. ए-19013/01/2008-प्र.सु.(प्रशासन 1)--राष्ट्रपति, श्री एस. ए. रहीम को दिनांक 1 अप्रैल, 2008 (पूर्वार्द्ध) से अगले आदेशों तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपसचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

दिनांक 7 अप्रैल 2008

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2008

सं. ए-19013/02/2008-प्र.सु. (प्रशासन 1)--राष्ट्रपति, श्री एस. के. गुप्ता को दिनांक 4 अप्रैल, 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उपसचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अनुराग श्रीवास्तव, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. ए.22011/1/2008-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के अकार्यात्मक चयन ग्रेड अधिकारी श्री सी.के.जी. नायर (आईईएस) को 1 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक नियुक्त करते हैं।

नीलम बोहरा, अवर सचिव

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. ए-32014/1/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री टी. के. दास, वित्त मंत्रालय संवर्ग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक को, दिनांक 2.4.2008 के पूर्वाह्न से और दिनांक 30.6.2008 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित व्यक्ति को उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन वित्तीय सेवाएं विभाग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

“इस अल्पावधि प्रोन्नति से उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और इस ग्रेड में अल्पावधि आधार पर उनके द्वारा की गई सेवा की गणना अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए नहीं की जाएगी।”

बलराम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2008

सं. ए-19014/1/2008-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री विनय कुमार पाठक, सहायक निदेशक, राज्य सभा सचिवालय को दिनांक 21.2.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में, प्रतिनियुक्ति आधार पर, असूली अधिकारी, ऋषि बसूली अधिकरण, जयपुर के पद पर नियुक्त करती है।

यह नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर खण्डपीठ में रिट याचिका सं. 2008 की 1416 के निर्णय के अधीन होगी।

ए. थामस, अवर सचिव

सं. ए-32013/1/2008-संवर्ग--राष्ट्रपति, 1998 की चयन सूची के नियमित अवर सचिव श्री दिवाकर की पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के चयन ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर 10 मार्च 2008 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं। श्री दिवाकर, उप सचिव को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

2. उक्त तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित निबंधनों व शर्तों के अधीन होगी :--

(i) यह तदर्थ प्रोन्नति उक्त ग्रेड में अनन्त काल तक बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने या चयन ग्रेड में बरीयता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

(ii) उक्त तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

जोस थोमस, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2008

सं. 7/2008 (ए-12022/10/2008-स्वा.)--राष्ट्रपति, श्री जे.एन. सिंह, आईएएस (गुजरत : 83) को 26 मार्च, 2008 की पूर्वाह्न से उनकी पांच वर्ष की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि अर्थात् 23.10.2010 तक अथवा अगले आदेशों, इनमें से जो भी पहले हो, तक 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में, वस्त्र मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

बलबीर सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. ए-43011/26/99-प्रशासन--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 25.2.2008 के आदेश संख्या 13016/1/2008-आई ई एस के अनुसरण में सुश्री बी. के. तेजा (भारतीय आर्थिक सेवा : 74) को 10 मार्च, 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग में 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार (एच ए जी स्तर) के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. ए-32012/4/2006-सीएचएस-VI--डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में तैनात डॉ. एच. पी. सिंह और डॉ. गौतम खटक ने स्टाफ सर्जन (दन्त चिकित्सा) के रूप में अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप, दिनांक 25.8.2006 (पूर्वाह्न) से कनिष्ठ स्टाफ सर्जन (दन्त चिकित्सा) (10,000-325-15,200/- रुपये) के पदों का कार्यभार छोड़

दिया है और 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में स्टाफ सर्जन (दन्त चिकित्सा) के पदों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सी. एस. मिश्रा, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. ए.38012/06/2007-स्थापना-I--अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के. के. गुप्ता जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में तैनात थे, दिनांक 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

सं. ए.38012/07/2007-स्थापना-I--अधिवर्षितावय प्राप्त कर लेने पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एन. एस. वेदी जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में तैनात थे, दिनांक 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

सं. ए.32013/01/2007-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25.2.2008 तथा 25.3.2008 के आदेश संख्या 4/4/2008-सीएस-1 (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में प्रोन्नति होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में उप सचिव के रूप में पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

1. श्री जे. पी. मेहता 31.3.2008 (पूर्वाह्न)
2. श्री के. एस. पालाचन्दन 01.4.2008 (पूर्वाह्न)
2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :--

- (i) तदर्थ प्रोन्नति से इस ग्रेड में अनिश्चितकाल बने रहने नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने या ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

पी. जी. कलाधरन, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2008

सं. 36-15/2003-प्रौढ़ शिक्षा-6(पार्ट)--भारत के राष्ट्रपति स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक श्री रामकृष्ण सूर को दिनांक 10.3.2008 से आगले आदेशों तक इसी निदेशालय में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. ओहरी, अवर सचिव

सं. 36-15/2003-प्रौढ़ शिक्षा-6(पार्ट)--भारत के राष्ट्रपति स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक श्री ए. एम. राजशेखर को दिनांक 10.3.2008 से आगले आदेशों तक इसी निदेशालय में 12,000-375-16,500/- रुपए के वेतनमान में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. के. ओहरी, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 मार्च 2008

सं. 42018/11/2004-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.2.2008 के आदेश संख्या 3/1/2006-सीएस-1 (डी)(ii) के अनुसरण में और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोएफ (2502)/ई-1, दिनांक 29.02.2008 के का.आ. संख्या 44/2008-ई-1 द्वारा कार्यमुक्त किए जाने पर, सुश्री सुचित्रा गोस्वामी को 03.03.2008 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में उपसचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2008

सं. 19011/11/2006-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.02.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/1/2008-ई.ओ.(एम.एम.-1) (भाग-1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय (श्री पी. आर. किंडिया) के पूर्व निजी सचिव और इस समय आई. आई. एम., अहमदाबाद में दीर्घावधि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे श्री समीर कुमार सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एएम. : 94) को, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली में उपसचिव के रूप में अपना नया कार्यभार ग्रहण करने के लिए 31 मार्च, 2008 के अपराह्न से इस मंत्रालय से कार्यमुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2008

सं. 19011/2/2000-स्था.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.2.2008 के आदेश सं. 21/27/2006-सी.एस. 1(डी) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में उपसचिव श्री एस.के. गुप्ता को 4.4.2008 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त करते हैं ताकि वह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में अपना नया कार्यभार ग्रहण कर सकें।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. 2(6)/2007-कार्मिक.1.--राष्ट्रपति जो ने प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने/वैयक्तिक), श्रीमती बीना खीरा को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में दिनांक 01.04.2008 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रुपए के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव (नियमित) नियुक्त किया है।

2. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अप्रैल 2008

सं. ए-12022/8/2006-प्रशासन--नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप वर्तमान में नागर विमानन मंत्रालय में विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री रघु मेनन को 31 मार्च, 2008 को अपराह्न से नागर विमानन मंत्रालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

के. के. पद्मानाभन, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. ई(जी.पी.)2005/1/36--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेल के मनोतकनीकी विभाग के निम्नलिखित दो ग्रुप 'बी' अधिकारियों को 24.1.2008 से वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (मनो.) के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नति की स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं. अधिकारियों के नाम

सर्वश्री

2006-07 के लिए पैनाल

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. ओ. पी. श्रीवास्तव    | आर. सी. एस. ओ. में कार्यरत |
| 2. ए. टी. सामी (अ. जा.) | दक्षिण रेलवे में कार्यरत   |
- मैथ्यू जॉन, सचिव (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(जी.पी.)2004/1/57--राष्ट्रपति महोदय, उत्तर मध्य रेलवे के लेखा विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी, श्रीमती पुष्पा भट्ट की 26.4.2007 से भारतीय रेल लेखा सेवा (पैनल वर्ष 2006-07) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन करते हैं। बहरहाल, श्रीमती पुष्पा भट्ट 1.2.2008 से ही कनिष्ठ वेतनमान में वित्तीय लाभ प्राप्त करने की पात्र होंगी।

मैथ्यू जॉन, सचिव (रेलवे बोर्ड)

दिनांक 10 अप्रैल 2008

सं. ईआरबी-I/2006/20/5--राष्ट्रपति जी अनुसंधान अधिकल्प एवं मानक संगठन के सिविल इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित समूह 'ख' अधिकारियों का 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान में उपनिदेशक (सिविल इंजीनियरी)/अ.अ.मा.स. के ग्रेड में नियमित पदोन्नति के लिए चयन को सहर्ष अनुमोदित करते हैं :--

वर्ष 2001-02 हेतु (एक सामान्य रिक्ति के लिए)

1. श्री एम. बोटके (31.08.2003 को सेवानिवृत्त)

वर्ष 2005-06 हेतु (पांच रिक्तियों-चार सामान्य एवं एक अ.ज.जा. के लिए)

1. श्री आर. पी. तिवारी
2. श्री बी. एस. राजपाल

वर्ष 2006-07 हेतु (3 रिक्तियों-दो सामान्य एवं एक अ.ज.जा. के लिए)

1. श्री पी. उपाध्याय
2. श्री राधे श्याम (अ.जा.)-अनारक्षित रिक्ति के संबंध में संस्तुत।

मैथ्यू जॉन, सचिव (रेलवे बोर्ड एवं पदेन अपर सचिव)

सं. ईआरबी-I/2008/2/8--श्री ए. के. चतुर्वेदी, उच्च प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.या.से., अ.अ.मा.स., को 28.3.2008 के पूर्वाह्न से 24,050-26,000 रुपए के ग्रेड में अपर सदस्य (खानपान एवं पर्यटन), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

मैथ्यू जॉन, सचिव (रेलवे बोर्ड)

घात परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2008

सं. ए-38012/1/2007-ई-II(बी)--सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में केंद्रीय सचिवालय आनुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री सी.पी. शर्मा, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.03.2008 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. एस. राव, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2008

सं. 08/2008 मिसिल सं. ए-32013/1/2007-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर) रुपए 14,300-400-18,300 के वेतनमान में, उनके अनुपलब्धता पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री		
1.	एस. सी. आनंद	27 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न)
2.	एस. सी. श्रीवास्तव	27 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न)
3.	आर. सी. झा	27 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न)
4.	बी. के. आर्य	8 जनवरी 2008 (पूर्वाह्न)

चंदन मुखर्जी, अवर सचिव

## RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 27th March 2008

No. RS/3/8(1)/2008/9-Pers.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Assistant Director (Security) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (Security) in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 in that Secretariat with immediate effect, until further orders :—

1. Shri Shambhu Datt Joshi (On Proforma basis)
2. Shri Dharam Prakash Kapur

2. The appointment of Shri Dharam Prakash Kapur is on ad-hoc basis against a deputation vacancy. The service rendered on ad-hoc basis in the grade of Deputy Director (Security) will not be counted for the purpose of seniority in that grade and for eligibility for promotion to the next higher grade.

K. SUDHAKARAN, Dy. Dir.

## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 26th March 2008

No. P.F. 787-R(3)/GN-6037/AN-I/2008—On reversion from deputation to Ministry of Tribal Affairs, Shri Naushad Alam has resumed duty in this Secretariat as Joint Director (LARRDIS) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from the forenoon of 19th March, 2008.

R. C. AHUJA, Jt. Secy.

New Delhi-110 001, the 18th March 2008

No. P.F. 192-R(3)/GN-6036/AN-I/2008—On reversion from deputation of Food Corporation of India, Bhubaneswar, Shri Sovan Kumar Ganguli has resumed duty in this Secretariat as EO/LO/CO/PO in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500 with effect from the forenoon of 14th March, 2008.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

The 9th April 2008

No. P.F. 5R(3)/GN-6041/AN-I/2008—The Speaker is pleased to appoint Shri N. K. Sapra, Joint Secretary in the scale of Pay of Rs. 18,400-22,400 as Additional Secretary in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500 with effect from 8th April, 2008, until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Dir.

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 1st April 2008

No. A. 38012/3/2007-Ad.I—On attaining the age of superannuation Shri S. R. Mehra, IPS (AM : 1970), Secretary (Security) Cabinet Secretariat, retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2008.

R. KRISHNAMURTHY, Under Secy.

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 3rd April 2008

No. 12018/01/2007-ISS—The Competent Authority in the Ministry of Statistics and Programme Implementation has accepted the resignation submitted on 24.03.2008 by Sh. Sajayan T., an ISS Probationer of Indian Statistical Service (ISS : 2006), with immediate effect.

VENKATRAMANA R. HEGDE, Dy. Dir. (ISS)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 9th April 2008

No. 20/G/2976-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Viswapati Trivedi, IAS (MP : 77), as Additional Secretary and Financial Adviser (H) in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 1st April, 2008.

J. B. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 10th April 2008

No. I-18011/5/2007-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Agnihotri Sonal Mohan, IPS (Himachal Pradesh : 2004), in the Indian Police Service with effect from the 06th September, 2006.

RAJINDER KUMAR, Sec. Off.

New Delhi, the 11th April 2008

No. I-14011/25/2007-IPS.I—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the Union Public Service Commission has on 17.03.2008, approved the Select List of 2007, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 14.11.2007, containing the names of the following State Police Service Officers of Gujarat, towards filling up three substantive vacancies in the IPS Gujarat Cadre during 2007 :—

## SELECT LIST 2007

S.No.	Name of the officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	M.D. Jani	05.04.1963
2.*	N. K. Amin (SC)	21.05.1958
3.#	A. V. Vasava (ST)	01.06.1951

\* The officer at S. No. 2 has been included provisionally subject to clearance of DE/Crl. Proceedings by the State Government.

# The officer at S. No. 3 has been included provisionally subject to grant of integrity certificate by the State Government.

O. S. ASHOK, Under Secy.

No. I-14011/25/2007-JPS.I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1955, the President is pleased to appoint Shri M.D. Jani (D.O.B. 05.04.1963) of Gujarat Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate him to the cadre of Gujarat under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) rules, 1954. The appointment will take effect from the date of issue of this notification.

O. S. ASHOK, Under Secy.

#### NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110 001, the 4th April 2008

No. A-19011/1/2006-Admn.—Dr. S. D. Pradhan, Chairman, Joint Intelligence Committee, in the rank of Secretary to the Government of India, retired from Government service with effect from the afternoon of 29th February, 2008 on expiry of his extended period of service.

G. RAJEEV, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS & PUBLIC GRIEVANCES)

New Delhi-110 001, the 2nd April 2008

No. A-19013/01/2008-AR(AdI)—The President is pleased to appoint Shri S. A. Rahim, as Deputy Secretary of CSS in the Department of Administrative Reforms & Public Grievances on ad-hoc basis with effect from 1st April, 2008 (FN) until further orders.

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

The 7th April 2008

No. A-19013/02/2008-AR(AdI)—The President is pleased to appoint Shri S. K. Gupta, Deputy Secretary of CSS in Department of Administrative Reforms & Public Grievances w.e.f. 4th April, 2008 (FN).

ANURAG SRIVASTAVA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 8th April 2008

No. A.22011/1/2008-Admn. IA—The President is pleased to appoint Shri C. K. G. Nair (IES), a Non-Functional Selection Grade officer of IES, as Director in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from the forenoon of 1st April, 2008 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

#### (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

New Delhi, the 8th April 2008

No. A-32014/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint Shri T. K. Das, Assistant of CSS of the Cadre of Ministry of Finance to the Section Officers Grade of CSS purely on ad-hoc basis in the Department of Financial Services with effect from the forenoon of 02.04.2008 and for the period upto 30.06.2008 or till regular incumbents become available, whichever is earlier subject to the following conditions :—

"The short term promotion will not bestow on him any claim for regular appointment and services rendered by him on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade."

BAL RAM, Under Secy.

New Delhi, the 2nd April 2008

No. A-19014/1/2008-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Vinoy Kumar Pathak, Asstt. Director, Rajya Sabha Secretariat to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal, Jaipur on deputation basis, in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 for a period of three years w.e.f. 21.02.2008 (F/N) or until further orders, whichever is earlier.

The appointment is subject to the decision of the Rajasthan High Court, Jaipur Bench in Writ Petition No. 1416 of 2008.

A. THOMAS, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

#### (DEPARTMENT OF COMMERCE (SUPPLY DIVISION))

New Delhi, the 9th April, 2008

No. A-32013/1/2008-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri Diwakar, Regular Under Secretary of 1998 Select List, to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS cadre of Supply Division with effect from the forenoon of March 10, 2008, on adhoc basis until further orders. Shri Diwakar, Deputy Secretary is posted in DGS&D.

2. The ad-hoc promotion is subject to the following terms & conditions :—

- (i) The adhoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- (ii) Adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

JOSE THOMAS, Under Secy.

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 26th March 2008

No. 7/2008 (A-12022/10/2008-Estt)—The President is pleased to appoint Shri J. N. Singh, IAS (GJ : 83), as Joint Secretary in the Ministry of Textiles, in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400 with effect from the forenoon of 26th March, 2008, for the balance period of his normal Central deputation tenure of five years i.e. upto 23.10.2010 or until further orders, whichever event takes place earlier.

BALBIR SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 10th April 2008

No. A-43011/26/99-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/1/2008-IES dated 25.2.2008, the President is pleased to appoint Ms. B. K. Teja (IES : 74) as Senior Economic Adviser (HAG level) in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500, in the Department of Consumer Affairs with effect from the forenoon of 10th March, 2008 and until further orders.

PREMA BHATT, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 4th April 2008

No. A.32012/4/06-CHS.VI—Consequent on their promotion as Staff Surgeons (Dental), Dr. H. P. Singh and Dr. Gautam Khatak posted in Dr. R. M. L. Hospital and Safdarjang Hospital respectively have relinquished charge of the post of Junior Staff Surgeons (Dental) (Rs. 10,000-325-15,200) and assumed charge of the post of Staff Surgeon (Dental) in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500 with effect from 25.08.2006 (FN).

C. S. MISHRA, Under Secy.

## DEPARTMENT OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 1st April 2008

No. A.38012/06/2007-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri K. K. Gupta, an officer of the CSS and posted as Under Secretary in the Ministry of Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2008.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

No. A.38012/07/2007-Estt.I—On attaining the age of superannuation, Shri N. S. Bedi, an officer of the CSS and posted as Under Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare, has retired from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2008.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

No. A-32013/01/2007-E.I—Consequent upon their promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS vide Department of Personnel & Training's Order No. 4/4/2008-CS.I(D) dt. 25.2.2008 & 25.3.2008, the President is pleased to appoint the following officers of CSS to the post of Deputy Secretary in the Department of Health & Family Welfare, purely on ad-hoc basis with effect from the date shown against each and until further orders :—

1. Shri J. P. Mehta w.e.f. 31.03.2008 (FN)
2. Shri K. S. Palachandran w.e.f. 01-04.2008 (FN)

2. The ad-hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select list for regular appoint or to claim seniority in the Grade-I.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason thereof.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

New Delhi, the 12th March 2008

No. F.36-15/2003-A.E.6Pt.—The President of India is pleased to appoint Shri Ramakrishna Sura, Deputy Director, in the Directorate of Adult Education, a subordinate office under the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development as Joint Director, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 in the same Directorate w.e.f. 10.03.2008 until further orders.

S. K. OHRI, Under Secy.

No. F.36-15/2003-A.E.6Pt.—The President of India is pleased to appoint Shri A. M. Rajshankar, Deputy Director, in the Directorate of Adult Education, a subordinate office under the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development as Joint Director, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 in the same Directorate w.e.f. 10.03.2008 until further orders.

S. K. OHRI, Under Secy.

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 25th March 2008

No. 42018/11/2004-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2006-CS.I(D)(ii) dated 26.02.2008 and on being relieved by Department of Food and Public Distribution vide their Officer Order No. 44/2008-E-I of PF(2502)/E-I dated 29.02.2008, the President is pleased to appoint Ms. Suchitra Goswami, to the post of Deputy



Secretary in this Ministry with effect from the forenoon of 03.03.2008.

A. K. SAHA, Under Saha

The 31st March 2008

No. 19011/11/2006-Estt.—In pursuance of DOPT's O.M. No. 18/1/2008-EO(MM.I)(Pt.I) dated 28.02.2008, the President is pleased to relieve Sh. Samir Kumar Sinha, IAS (AM : 94), former Private Secretary to the Minister of Tribal Affairs (Sh. P. R. Kyndiah) and presently on "long term training" at IIM, Ahmedabad, with effect from the afternoon of 31st March, 2008 to take up his new assignment as Deputy Secretary in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 4th April 2008

No. 19011/2/2000-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 21/27/2006-CS.I(D) dated 04.02.2008, the President is pleased to relieve Sh. S. K. Gupta, Deputy Secretary in this Ministry with effect from the forenoon of 04.04.2008 so as to enable him to take up his new assignment in Department of Administrative Reforms and Public Grievances.

A. K. SAHA, Under Secy.

#### MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110 003, the 1st April 2008

No. 2(6)/2007-P.I.—The President is pleased to appoint Smt. Veena Dhingra, Principal Private Secretary (in-situ/personal) as Principal Private Secretary (regular) on promotion in this Department in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200 with effect from the forenoon of 01.04.2008.

2. She will be on probation for a period of two years w.e.f. the date of appointment.

GIRISH SAHA, Dy. Dir.

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi-110 003, the 1st April 2008

No. A 12022/8/2006-Admn.—Consequent upon his appointment as Chairman and Managing Director of National Aviation Company of India Ltd., Shri Raghu Menon, IAS (NL : 1974) presently Special Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Civil Aviation is relieved of his duties in the Ministry of Civil Aviation with effect from the afternoon of 31st March, 2008.

K. K. PADMANABHAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 7th April 2008

No. E(GP)2005/1/36—The President is pleased to approve of the below mentioned two Group 'B' officers of Psycho Technical Department of Indian Railways, being promoted to Group 'A'/Senior Scale as Senior Scientific officers with effect from 24th January, 2008:—

Panel for the year 2006-07

S/Shri

1. O. P. Srivastava (working in RDSO)
2. A. T. Sami (SC) (working in Southern Railway)

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board

No. E(GP)2004/1/57—The President is pleased to approve of Smt. Pushpa Bhatt, a Group 'B' officer of Accounts Department of North Western Railway being appointed to the Junior Scale of the Indian Railway Accounts Service (IRAS) (Panel year 2006-07) with effect from 26.4.2007, on that Railway. Smt. Pushpa Bhatt would, however, be entitled to monetary benefit in Jr. Scale w.e.f. 1.2.2008 only.

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board

The 10th April 2008

No. ERB-I/2006/20/5—The President is pleased to approve the selection of the following Group 'B' officers of Civil Engineering Department of Research Designs and Standards Organisation, Lucknow for regular promotion to the Grade of Deputy Director (Civil Engg.)/RDSO in scale of Rs. 10,000—15,200.

For the year 2001-02 (against one General vacancy)

1. Shri M. Botke (retired on 31.08.2003)

For the year 2005-06 (against five vacancies—four General and one ST)

1. Shri R. P. Tiwari
2. Shri B. S. Rajpal

For the year 2006-07 (against three vacancies—two General and one ST)

1. Shri P. Upadhyay
2. Shri Radhey Shyam (SC)—recommended against unreserved vacancy.

MATHEW JOHN, Secy./Railway Board  
& Ex-officio Additional Secretary

No. ERB-I/2008/2/8—Shri A. K. Chaturvedi, HAG/IRTS, R.D.S.O., is appointed as Additional Member (T&C), Railway Board, in Grade Rs. 24,050–26,000 with effect from the forenoon of 28.03.2008.

MATHEW JOHN, Secy., Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &  
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 1st April 2008

No. A.38012/1/07-E.II(B)—Shri V. P. Sharma, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Senior Principal Private Secretary in the Deptt. of Road Transport & Highways has retired on superannuation w.e.f. 31.3.2008 (AN).

K. S. RAO, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 8th April 2008

No. 08/2008. F. No. A-32013/1/2007-Adm.I—The President is pleased to appoint the following officers of the Central Power Engineering (Group A) service in absentia to the grade of Junior Administrative Grade [Director (Engineering)/Superintending Engineer/System Engineer] of the Central Power Engineering (Group A) service], in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300 in the Central Electricity Authority, in an officiating capacity, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders :—

S. No.	Name of the Officer	Date of appointment
	S/Shri	
1.	S. C. Anand	27th December, 2007 (FN)
2.	S. C. Srivastava	27th December, 2007 (FN)
3.	R. C. Jha	27th December, 2007 (FN)
4.	B. K. Arya	8th January, 2008 (FN)

CHANDAN MUKHERJEE (Under Secy.)